

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 2019-श्रावण 11, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पिता रमेशचन्द्र का बैंक सेवा रिकार्ड में सरनेम पंवार (PANWAR) दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड में मतदाता सूची में मेरा सरनेम पवार (PAWAR) दर्ज है तथा मेरा वास्तविक नाम आशीष पंवार (ASHISH PANWAR) है। इस कारण से मेरे समस्त रिकार्ड में एवं दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष पंवार (ASHISH PANWAR) पिता रमेशचन्द्र पंवार (RAMESHCHANDRA PANWAR) समझा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(आशीष पवार)
(ASHISH PAWAR)

(385-बी.)

नया नाम :

(आशीष पंवार)
(ASHISH PANWAR)

पिता-रमेशचन्द्र पंवार,
(RAMESHCHANDRA PANWAR)
पता-वार्ड नं. 07, सतवास, तहसील सतवास,
जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति लक्ष्मी देवी/देवी तिवारी पति श्री अनूप तिवारी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी इन्दिरा गाँधी वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) स्वयं के नाम से देबी/देवी, विलोपित कर रही हूँ। आज दिनांक से मेरा नाम समस्त शासकीय व शैक्षणिक दस्तावेजों में लक्ष्मी देबी/देवी तिवारी के स्थान पर "लक्ष्मी तिवारी" लिखा एवं पढ़ा व समझा जाए।

पुराना नाम :

(लक्ष्मी देबी/देवी तिवारी)

(386-बी.)

नया नाम :

(लक्ष्मी तिवारी)

नाम परिवर्तन

मैं, योगेन्द्र कुमार पाठक पुत्र स्व. श्री गोरखनाथ पाठक सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड और पूर्व के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम योगेन्द्र कुमार है, लेकिन पहचान-पत्र और वर्तमान सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम योगेन्द्र कुमार पाठक अंकित है. दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः अब मुझे योगेन्द्र कुमार पाठक नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(योगेन्द्र कुमार)

नया नाम :
(योगेन्द्र कुमार पाठक)
पुत्र-स्व. श्री गोरखनाथ पाठक,
पता-मकान नं. 110, संतोषी विहार,
अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल.

(387-बी.)

CHANGE IN NAME

I, GOPALA GOYAL S/o Mukesh Goyal here by declare that I have change My name as AARAV GOYAL S/o Mukesh Goyal so, from now and In future I will be known by my new name.

Old Name :
(GOPALA GOYAL)

New Name :
(AARAV GOYAL)
S/o Mukesh Goyal,
Address-16, Mahaveer Marg Khategaon,
Dist. Dewas (M.P.) 455336.

(388-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. सपना वाधवानी (SAPNA WADHWANI) था. शादी के पश्चात् मेरा नाम परिवर्तन होकर श्रीमती वेनेशा कालरा (VENESHA KALRA) हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(सपना वाधवानी)
(SAPNA WADHWANI)

नया नाम :
(वेनेशा कालरा)
(VENESHA KALRA)
32-बी, वीरसावरकर नगर, जी-1,
संदीप हेरिटेज, इन्दौर (म.प्र.)

(389-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सूचनादाता का नाम आशा डोंगरे पुत्री लक्ष्मणराव डोंगरे यह नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं बैंक खाते में दर्ज है विवाह उपरांत मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती गीता मांडवगणें पत्नी श्री गोपालराव मांडवगणें हो गया है एवं यही नाम मेरे समस्त शासकीय दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है. दोनों ही नाम मुझ सूचनादाता के ही हैं एवं दोनों ही नामों से मुझे जाना, पहचाना व पुकारा जाता है.

पुराना नाम :
(आशा डोंगरे)
पुत्री-श्री लक्ष्मणराव डोंगरे,
निवासी-ग्वालियर.

नया नाम :
(गीता मांडवगणें)
पत्नी श्री गोपालराव मांडवगणें,
निवासी-धोबी गली, लाला का बाजार,
लश्कर, ग्वालियर.

(390-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी क्र. 200696586 में मेरा नाम पुलन्दर सिंह गुर्जर अंकित है। जबकि मेरे बैंक खाते एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गौरव सिंह गुर्जर अंकित है। यह कि गौरव सिंह एवं पुलन्दर सिंह गुर्जर दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं। अतः भविष्य में मुझे गौरव सिंह गुर्जर के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(पुलन्दर सिंह गुर्जर)

नया नाम :

(गौरव सिंह गुर्जर)

पुत्र श्री केशव सिंह गुर्जर,
महाराजपुरा थाना के पास, ग्वालियर.

(391-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता शर्मा पति जगदीश शर्मा, निवासी 3381, ई-सेक्टर, सुदामा नगर, इन्दौर मेरे पुत्र का नाम डीव्यश शर्मा पिता जगदीश शर्मा है। भूलवश पुत्र का नाम स्कूल रिकार्ड में हेमांग शर्मा हो गया है। अतः उसे डीव्यश शर्मा के नाम से ही जाना जाए।

सुनीता शर्मा,

पति-जगदीश,

3381, ई-सेक्टर, सुदामा नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

(392-बी.)

CHANGE IN NAME

It is to inform all that I (Anil Mahajan S/o Pandurang Mahajan) am a residing of RB-58 indus town ratanpur huzur university Huzur, Bhopal (Madhya Pradesh). My name is Anil Mahajan but by mistake in records my name was mentioned as ANIL. In all identity Private, Government, Semi Government, Bank or other concerned records my name is mentioned as ANIL MAHAJAN. So, my name be treated as ANIL MAHAJAN.

VIJENDRA SHARMA

(Advocate)

E-128, New Subhash Nagar,
Bhopal-462021 (M.P.).

(393-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम नयन पहारिया पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार पहारिया के स्थान पर नाम परिवर्तित कर नयेन्द्र पहारिया पुत्र योगेन्द्र कुमार पहारिया रख लिया है, भविष्य में मुझे व मेरे समस्त शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में व दैनिक कार्य व्यवहार में मेरा नया नाम नयेन्द्र पहारिया के ही नाम से मुझे जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं यही नाम भविष्य में मेरे समस्त शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में उपयोग किया जावेगा।

पुराना नाम :

(नयन पहारिया)

पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार पहारिया,
निवासी-जी-11, जैन मंदिर के पास,
चेतकपुरी, ग्वालियर.

(394-बी.)

नया नाम :

(नयेन्द्र पहारिया)

पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार पहारिया,
निवासी-जी-11, जैन मंदिर के पास,
चेतकपुरी, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम संध्या अग्निहोत्री पुत्री श्री रामलखन अग्निहोत्री था। विवाह उपरांत

धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार मेरा नाम श्रीमती संध्या मिश्रा पत्नी श्री नीलेश कुमार मिश्रा हो गया है। भविष्य में मुझे व मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में एवं दैनिक कार्य व्यवहार में मुझे श्रीमती संध्या मिश्रा के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(संध्या अग्निहोत्री)

(संध्या मिश्रा)

पुत्री श्री रामलखन अग्निहोत्री,
निवासी रजमन नगर, सागर ताल चौराहा,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.)

पत्नी श्री नीलेश कुमार मिश्रा,
निवासी-दुर्गा विहार कॉलोनी, आदर्श मिल के सामने,
बहोड़ापुर, ग्वालियर.

(395-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पूनम सिंह ठाकुर, उम्र 32 वर्ष पिता श्री रूप सिंह ठाकुर, निवासी म. नं. 1920 लालमाटी बड़ी संतोषी माता मंदिर, सेठ गोविन्द दास, वार्ड क्र. 47, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पूनम सिंह ठाकुर दर्ज है। जबकि अब निकट भविष्य में मैं अपना नाम परिवर्तन कर पुनीत सिंह ठाकुर पिता श्री रूप सिंह ठाकुर करना चाहता हूँ। सर्व-साधारण के सूचनार्थ यह जाहिर सूचना करवा रहा हूँ कि अब आगे से मुझे पुनीत सिंह ठाकुर के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(पूनम सिंह ठाकुर)

(पुनीत सिंह ठाकुर)

पिता-श्री रूप सिंह ठाकुर,
निवासी-म. नं. 1920 लालमाटी
बड़ी संतोषी माता मंदिर, सेठ गोविन्द दास,
वार्ड क्र. 47, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(400-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Sweety Bhatara D/o Sajan Kumar Bhatara born on 25-08-1995, residing at flat No. 102, 40 Tirupati Colony, Indore M.P. have changed my name to Palak Bhatara vide affidavit dated 28-02-2019 at Indore.

Old Name :

New Name :

(SWEETY BHATERA)

(PALAK BHATERA)

R/o Flat No. 102, 40 Tirupati Colony,
Indore (M.P.).

(401-B.)

CHANGE OF NAME

I, Sanket Kumar Shrivastava S/o Mahesh Kumar Shrivastava, R/o Vill. Jamunpani Post & The Dhanora, Distt. Seoni M.P. 480999 as per my 10th and 12th Marksheets my correct name is Sanket Kumar Shrivastava S/o Mahesh Kumar Shrivastava. As per my Graduation Marksheet my name is Sanket Kumar S/o Mahesh Kumar. In my police Service record my name is written as Sanket Shrivastava S/o Mahesh Shrivastava. All this three name's belong to same person. In future I should be known as Sanket Kumar Shrivastava S/o Mahesh Kumar Shrivastava. In future my name is recorded as Sanket Kumar Shrivastava S/o Mahesh Kumar Shrivastava on all my Government and Semi Government records.

Old Name :

New Name :

(SANKET KUMAR/SANKET SHRIVASTAVA/
SANKET KUMAR SHRIVASTAVA)

(SANKET KUMAR SHRIVASTAVA)
S/o Mahesh Kumar Shrivastava.

(402-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिशा सी. दावडा पत्नी चैतन्यमनी हसमुख दावडा, निवासी फ्लैट नं. 201, वैभव एफ ब्लॉक, सुरेन्द्र पैलेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल सूचित करती हूँ कि विवाह से पूर्व मेरा नाम वैशाली विजयवर्गीय पुत्री श्री प्रेमनारायण विजयवर्गीय था।

दिनांक 29-01-2019 को मेरा विवाह श्री चैतन्यमनी हसमुखी दावडा के साथ हिन्दू विधि अनुसार संपन्न हुआ था. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम बदलकर दिशा सी. दावडा पत्नी चैतन्यमनी हसमुख दावडा रख लिया है. दिशा सी. दावडा पत्नी चैतन्यमनी हसमुख दावडा एवं वैशाली विजयवर्गीय पुत्री प्रेमनारायण विजयवर्गीय एक ही महिला के नाम एवं सरनेम है अर्थात् मेरे नाम हैं. वर्तमान में मैं अपने नये नाम दिशा सी. दावडा के नाम एवं सरनेम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(वैशाली विजयवर्गीय)

(407-बी.)

नया नाम :

(दिशा सी. दावडा)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लालू कोठारे (Lalu Kothare) के स्थान पर अमन कोठारे (Aman Kothare) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अमन कोठारे (Aman Kothare) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(लालू कोठारे)

ग्राम भोजाखेड़ी, पोस्ट-भोजाखेड़ी,
तहसील व जिला खण्डवा (म.प्र.).

(403-बी.)

नया नाम :

(अमन कोठारे)

ग्राम भोजाखेड़ी, पोस्ट-भोजाखेड़ी,
तहसील व जिला खण्डवा (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

It is informed to the General Public that previously my name was AMAN SHARMA S/o SHRI DINESH CHANDRA SHARMA. Now I have changed my name as KABIR SHARMA S/o SHRI DINESH CHANDRA SHARMA, Now in future I will be known as KABIR SHARMA.

Old Name :

(AMAN SHARMA)

27, Royal Bunglow, Nipaniya Road,
Infront of Samar Park, Post-Jhalaria,
Indore (M.P.).

(404-B.)

New Name :

(KABIR SHARMA)

27, Royal Bunglow, Nipaniya Road,
Infront of Samar Park, Post-Jhalaria,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, असलम खां पिता अब्दुल खां उम्र 45 वर्ष, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर अपना नाम हिन्दू धर्म के अनुसार चन्द्रेश्वर राय (Chandreshwar Ray) रखा है. अतः मुझे अब चन्द्रेश्वर राय (Chandreshwar Ray) नाम से जाना व पहचाना जावे. सो विदित होवें.

पुराना नाम :

(असलम खां)

203, लाहिया नगर (कबीट खेड़ी),
ठाकुर किराना शॉप के पास,
विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(405-बी.)

नया नाम :

(चन्द्रेश्वर राय)

203, लाहिया नगर (कबीट खेड़ी),
ठाकुर किराना शॉप के पास,
विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Know all men that the Firm M/s Rajinder Singh Ratan, Jabalpur (Reg. No.04/14/01/0259/19 Year 2018-19 Dt. 18.01.2019) formed on 26-12-2018. The Partner Shri Rajinder Singh Ratan expired on

06-02-2019 and his wife Smt. Kuldeep Kaur Ratan has been entered as partner in this firm as per partnership deed dated 12-07-2019. The constitution of the firm w.e.f. 06-02-2019 with 2 partners as Smt. Kuldeep Kaur Ratan and Karuna Nidhi Singh.

M/s RAJINDER SINGH RATAN,
KARUNA NIDHI SINGH,
(Partner).

(396-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रिछारिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्र. 06/09/01/0024/18, दिनांक 28-06-2018 जो 101, रोज रेजीडेंसी, संजय ड्राइव, सागर में स्थित है जिसमें दिनांक 05-03-2019 को भागीदार श्री प्रमेन्द्र रिछारिया (कर्ता) एच. यू. एफ. के रूप में भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स रिछारिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
सुसमिता रिछारिया,
(भागीदार)
पता-101, रोज रेजीडेंसी, संजय ड्राइव,
सागर.

(397-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ए बी कार्पोरेशन जिसका पंजीयन क्रमांक 00462/12, दिनांक 03-02-2012 में पंजीकृत है जो ओल्ड कबाड़खाना जुमेराती भोपाल में स्थित है जिसमें दिनांक 31-03-2019 को भागीदार श्रीमती भारती गर्ग पत्नी श्री अरूण कुमार गर्ग एवं श्रीमती आरती गर्ग पत्नी श्री अतुल कुमार गर्ग अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई हैं फर्म में कुल भागीदार संख्या 03 (तीन) थी. जिसमें दो भागीदारों के पृथक हो जाने के कारण भागीदारी फर्म स्वतः समाप्त हो गई है. अतः फर्म का संचालन प्रोपराईटरशिप में श्री अंकित कुमार गर्ग के द्वारा प्रोपराईटर के रूप में किया जायेगा. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स ए बी कार्पोरेशन,
अंकित कुमार गर्ग,
(भागीदार)
पता-ओल्ड कबाड़खाना, जुमेराती,
भोपाल (म.प्र.).

(398-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स S.R.M. INFRA PROJECT पता-प्रथम तल 302, बजरंग प्लाजा, सचिन तेन्दुलकर रोड, सिटी सेंटर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका गठन दिनांक 14-09-2018 को पार्टनर्स (1) अमित सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल सिंह चौहान, (2) श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, (3) चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता एवं (4) श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा द्वारा मिलकर आपसी सहमति से किया गया. किन्तु दिनांक 16-10-2018 को फर्म में संशोधित डीड अनुसार पार्टनर क्र. (3) चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता स्वेच्छा से अलग हो कर नवीन पार्टनर के रूप में (5) चेतन प्रकाश गुप्ता (HUF) एवं (6) श्री प्रतीक खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद खण्डेलवाल सर्वसहमति से सम्मिलित हुए हैं.

अतः दिनांक 16-10-2018 से फर्म S.R.M. INFRA PROJECT प्रथम तल 302, बजरंग प्लाजा, सचिन तेन्दुलकर रोड, सिटी सेंटर, ग्वालियर को निम्न पार्टनर्स द्वारा संचालित की जावेगी.

- (1) अमित सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल सिंह चौहान, (2) श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता,
- (3) चेतन प्रकाश गुप्ता (HUF) पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, (4) श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा,
- (5) श्री प्रतीक खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद खण्डेलवाल.

S. R. M. INFRA PROJECT,
अमित गुप्ता,
(Partner).
पता-302, बजरंग प्लाजा, सिटी सेंटर,
ग्वालियर.

(406-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हाजी कम्पनी फर्म जिसका पता-501, महात्मा गाँधी रोड, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 2569, दिनांक 16-03-1973 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. हाजी हबीब पिता दादा भाई, 2. मोहम्मद अमीन पिता इब्राहिम, 3. अब्दुल अजीज पिता हाजी शफी, 4. अब्दुल कादर पिता हाजी शफी, 5. हाजी अली पिता मूसाभाई, 6. गुल मोहम्मद पिता हाजी अली मोहम्मद, 7. हाजी जकरिया पिता वली मोहम्मद, 8. हाजी अब्दुल गप्फार पिता वली मोहम्मद, 9. हाजी हनीफ पिता हाजी हारुन, 10. मोहम्मद अमिन पिता हाजी हारुन, 11. वली मोहम्मद पिता हाजी इस्माईल एवं 12. अनवर पिता हाजी हबीब थे। तत्पश्चात् दिनांक 13-10-1980 को हाजी अली पिता मूसाभाई की मृत्यु हो गयी थी। उनकी जगह उनकी वारिस आईशा बाई पति हाजी अली को दिनांक 14-10-1980 को भागीदार बनाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27-08-1982 को हाजी जकरिया पिता वली मोहम्मद की मृत्यु हो गयी थी उनकी जगह उनके वारिस मोहम्मद यूनस पिता हाजी जकरिया को 28-08-1982 को भागीदार बनाया गया तथा मोहम्मद अमीन पिता इब्राहिम, दिनांक 28-08-1982 को भागीदारी फर्म से पृथक् हो गए और मोहम्मद रियास पिता हारुन सिद्धिकी भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए। तत्पश्चात् दिनांक 18-10-1994 को हाजी अब्दुल गप्फार पिता वली मोहम्मद की मृत्यु हो गयी थी उनकी जगह उनके वारिस मोहम्मद तौफिक पिता हाजी गप्फार को दिनांक 20-10-1994 भागीदार बनाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28-01-2006 को आईशा बाई पति हाजी अली की मृत्यु हो गयी थी उनकी जगह उनके वारिस मोहम्मद शादाब पिता गुल मोहम्मद एवं मोहम्मद इस्माइल शेख पिता अब्दुल अजीज को 29-01-2006 को भागीदार बनाया गया एवं 1. अब्दुल कादर पिता हाजी शफी, 2. हाजी हनीफ पिता हाजी हारुन, 3. मोहम्मद अमिन पिता हाजी हारुन, 4. वली मोहम्मद पिता हाजी इस्माईल, 5. मोहम्मद रियाज पिता हारुन सिद्धिकी, 6. अनवर पिता हाजी हबीब, 7. मोहम्मद यूनस पिता हाजी जकरिया, 8. मोहम्मद तौफिक पिता हाजी गप्फार भागीदारी फर्म मेसर्स हाजी कम्पनी से पृथक् हो गये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 13-02-2008 को हाजी हबीब पिता दादा भाई की मृत्यु हो गयी थी। उनकी जगह उनके वारिस सलीम सिद्धिकी पिता हाजी हबीब को दिनांक 14-02-2008 भागीदार बनाया गया तथा अशफाक सिद्धिकी पिता इब्राहिम को भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया। यह विदित हो।

तर्फे

मेसर्स हाजी कम्पनी,
अशफाक सिद्धिकी.

(408-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री संतोष दीक्षित पिता प्रेमनारायण व अन्य, निवासी-30, श्री मंगल स्टेट शुभ-लाभ विला बिल्डींग के पास भिचौली रोड बंगाली स्कायर, इन्दौर के द्वारा मध्य भारत म्युजिक डान्स एकेडमी, पता-आदर्श शिशु विहार स्कूल, भिचौली रोड बंगाली स्कायर, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 (2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का चालान क्रमांक 0037, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 का प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | मध्य भारत म्युजिक डान्स एकेडमी ट्रस्ट. |
| पता | : | आदर्श शिशु विहार स्कूल, भिचौली रोड बंगाली स्कायर, इन्दौर. |
| चल सम्पत्ति | : | 15,000/- रुपए. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 06 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(482)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री संतोष दीक्षित पिता प्रेमनारायण व अन्य, निवासी-30, श्री मंगल स्टेट शुभ-लाभ विला बिल्डींग के पास भिचौली रोड बंगाली स्कायर, इन्दौर के द्वारा ओम इन्टरनेशनल चेरीटेबल ट्रस्ट इन्दौर, पता-30, श्री मंगल स्टेट शुभ-लाभ विला बिल्डींग के पास भिचौली रोड बंगाली स्कायर, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 (2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का चालान क्रमांक 0038, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 का प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | ओम इन्टरनेशनल चेरीटेबल ट्रस्ट इन्दौर. |
| पता | : | 30, श्री मंगल स्टेट शुभ-लाभ विला बिल्डींग के पास भिचौली रोड बंगाली स्कायर, इन्दौर. |
| चल सम्पत्ति | : | 15,000/- रुपए. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 06 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,
पंजीयक.

(483)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उचेहरा, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-05

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक उचेहरा जिला के समक्ष।

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिये मैं, संस्कृति शर्मा, लोक न्यासों का पंजीयक उचेहरा, जिला सतना मेरे न्यायालय में 2019 के 28-08-2019 के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करती हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया गया कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री भूत भावन बटइया भोलेनाथ धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास तमसा नदीतीर ग्राम पंचायत भरहुत, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.)

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं:-

| | | |
|--------------|---|---------|
| चल सम्पत्ति | : | 11000/- |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

(484)

संस्कृति शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सुसनेर नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा**प्रारूप-चार**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास, सुसनेर.

जिला आगर-मालवा के समक्ष.

चूँकि संवाद हेतु न्यासी श्री श्री सिद्धनाथ पिता गंगाराम जाति पाटीदार, निवासी ग्राम लोलकी अध्यक्ष एवं सचिव श्री कन्हैयालाल पिता नेमीचंद जाति जैन सचिव ने श्री श्री हनुमान मंदिर माधव विलास समिति ट्रस्ट लोलकी का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12-08-2019 को प्रातः 11.00 बजे विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर, जिला आगर-मालवा का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12-07-2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम : श्री हनुमान मंदिर माधव विलास समिति, तहसील नलखेड़ा.

(485)

मनीष कुमार जैन,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड-जाबद, जिला नीमच

प्र.क्र.001/बी-113(1)/18-19.

जाबद, दिनांक 18 जून, 2019

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक मुख्य न्यासी श्री धनश्यामदास पिता रतनदास वैष्णव, निवासी अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश श्री रामधाम परमार्थिक ट्रस्ट अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 25 जुलाई, 2019 पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

| | | |
|-------------------------|---|---|
| लोक न्यास का नाम और पता | : | श्री रामधाम बालाजी परमार्थिक ट्रस्ट अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.). |
| सम्पत्ति का विवरण | : | चल सम्पत्ति वाहन बोलेरो महिन्द्रा-आर जे. 06 यू ऐ-4443 कीमत 3,00,000/- रुपये मॉडल 2010 व 10101/- रुपये नगद. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

(486)

अरविंदसिंह माहौर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 09 जुलाई, 2019

फार्म-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) के तहत]

क्र./3184/आर-1/2019.—आवेदक श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ वाटिका पिपलौदा द्वारा धारा-4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 25 जुलाई, 2019 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02:30 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 25 जुलाई, 2019 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेंट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. न्यास का पूरा नाम | : | श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ वाटिका पिपलौदा. |
| 2. चल सम्पत्ति का विवरण | : | 7500/- |
| 3. अचल सम्पत्ति का विवरण | : | भूमि सर्वे नं. 1455/2 रकबा 0.360. |

(487)

एम. एल. आर्य,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक कलेक्ट्रेट कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

कलेक्ट्रेट कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./227, दिनांक 22 जून, 1995 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/843, ग्वालियर, दिनांक 31 मई, 2019 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो (2) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(488)

एम. के. सिंघल,
परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2019-श्रावण 11, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य में आकाश मेघाच्छादित रहा है. राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.01 मि. मी. से 17.04 मि. मी. तक:- तहसील करहाल श्योपुर, विजयपुर, (श्योपुर) अटेर भिण्ड, गोहद, मैहगाँव, लहार, रौन मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर) दतिया (दतिया), नरवर, करैरा, पोहरी (शिवपुरी), दमोह (दमोह), रामपुरबघेलान, रघुराजनगर (सतना), सिंगरौली (सिंगरौली) नीमच, मनासा (नीमच) थांदला, पेटलाबद, रानापुर (झाबुआ), विदिशा (विदिशा) बुधनी (सिहोर) गैरतगंज, गोहरगंज, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन) होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद) नैनपुर, बिछिया (मण्डला) छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, उमरेठ, मोहखेड़ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 17.05 मि. मी. से 34.09 मि. मी. तक:- तहसील नागोद, अमरपाटन (सतना) जयसिंहनगर (शहडोल) अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) मानपुर (उमरिया) उदयपुरा (रायसेन) सुहागपुर (होशंगाबाद) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- ..

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- ..

4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- ..

6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..

7. अन्य असामयक घटना से छति :- ओला पानी गिरने से जिला सागर में चना, मसूर में 05 से 10 प्रतिशत छति का अनुमान व जिला-छिन्दवाड़ा में तहसील उमरेठ दस ग्राम तथा मोहखेड़ के 06 ग्राम में छति होने का अनुमान एवं विस्तृत सर्वे कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया है.

8. **फसल स्थिति :-** राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है।
9. **सिंचाई:-** जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019

| जिला/तहसीलें | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---------------------------|---|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. जिला मुरैना : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . 4. (1) सरसों, चना अधिक (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. अम्बाह | . . | | | | |
| 2. पोरसा | . . | | | | |
| 3. मुरैना | . . | | | | |
| 4. जौरा | . . | | | | |
| 5. कैलारस | . . | | | | |
| 6. सबलगढ़ | . . | | | | |
| 2. जिला श्योपुर : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोहा, मैथी समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | 3.1 | | | | |
| 2. कराहल | 6.2 | | | | |
| 3. विजयपुर | 1.2 | | | | |
| 4. वीरपुर | . . | | | | |
| 5. बडोदा | . . | | | | |
| 3. जिला भिण्ड : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. अटेर | 4.6 | | | | |
| 2. भिण्ड | 10.3 | | | | |
| 3. गोहद | 10.0 | | | | |
| 4. मेहगांव | 14.2 | | | | |
| 5. लहार | 11.0 | | | | |
| 6. रौन+मिहोना | 14.0 | | | | |
| 7. गोरमी | . . | | | | |
| 8. मौ | . . | | | | |
| 4. जिला ग्वालियर : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) . . | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | 0.4 | | | | |
| 2. डबरा | . . | | | | |
| 3. भितरवार | 10.1 | | | | |
| 4. चीनोर | . . | | | | |
| 5. घाटीगांव | . . | | | | |
| 5. जिला दतिया : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सेवड़ा | . . | | | | |
| 2. दतिया | 0.1 | | | | |
| 3. इन्दरगढ़ | . . | | | | |
| 4. बढौनी | . . | | | | |
| 5. भाण्डेर | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
|--------------------------|----------|-----|-----|----------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 6. जिला शिवपुरी : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. | .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. | | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | .. | | | | | | |
| 4. नरवर | 6.0 | | | | | | |
| 5. करैरा | 2.0 | | | | | | |
| 6. कोलारस | .. | | | | | | |
| 7. पोहरी | 12.0 | | | | | | |
| 8. बैराढ़ | .. | | | | | | |
| 9. बदरवास | .. | | | | | | |
| 7. जिला अशोकनगर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. | .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मुँगावली | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. | | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | .. | | | | | | |
| 4. चन्देरी | .. | | | | | | |
| 5. नई सराय | .. | | | | | | |
| 6. पिपरई | .. | | | | | | |
| 7. शाढौरा | .. | | | | | | |
| 8. जिला गुना : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. | .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, | | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. राघोगढ़ | .. | | | धनियां बीज समान. | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बमोरी | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | | |
| 4. आरोन | .. | | | | | | |
| 5. चाचौड़ा | .. | | | | | | |
| 6. मकसूदनगढ़ | .. | | | | | | |
| 7. कुम्भराज | .. | | | | | | |
| 9. जिला टीकमगढ़ : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. | .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, | | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | .. | | | राई-सरसों अधिक. तुअर, | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | .. | | | गन्ना कम. | | | |
| 4. टीकमगढ़ | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | .. | | | | | | |
| 6. पलेरा | .. | | | | | | |
| 7. खरगापुर | .. | | | | | | |
| 8. मोहनगढ़ | .. | | | | | | |
| 9. लिधौरा | .. | | | | | | |
| 10. ओरछा | .. | | | | | | |
| 10. जिला छतरपुर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. | .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लौण्डी | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक. | | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | .. | | | (2) .. | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | .. | | | | | | |
| 4. छतरपुर | .. | | | | | | |
| 5. राजनगर | .. | | | | | | |
| 6. बिजावर | .. | | | | | | |
| 7. बड़ा मलहरा | .. | | | | | | |
| 8. लवकुशनगर | .. | | | | | | |
| 9. बक्सवाहा | .. | | | | | | |
| 10. महाराजपुर | .. | | | | | | |
| 11. चंदला | .. | | | | | | |
| 12. धुवारा | .. | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|----------|--|---|----------------|--------------|
| 11. जिला पन्ना : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7 पर्याप्त. |
| 1. अजयगढ़ | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | . . | | | | |
| 4. पवई | . . | | | | |
| 5. शाहनगर | . . | | | | |
| 6. देवेन्द्रनगर | . . | | | | |
| 7. अमानगंज | . . | | | | |
| 8. सिमरिया | . . | | | | |
| 9. रैपुरा | . . | | | | |
| 12. जिला सागर : | मिलीमीटर | 2. ओला पानी से चना, मसूर में 5 से 10% क्षति. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7 पर्याप्त. |
| 1. बीना | . . | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | . . | | गन्ना कम. आलू-प्याज अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं | | |
| 4. सागर | . . | | | | |
| 5. रेहली | . . | | | | |
| 6. देवरी | . . | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | . . | | | | |
| 8. राहतगढ़ | . . | | | | |
| 9. केसली | . . | | | | |
| 10. मालथोन | . . | | | | |
| 11. शाहगढ़ | . . | | | | |
| 13. जिला दमोह : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7 पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | तुअर, चना, गेहूँ कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | 3.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| 14. जिला सतना : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7 पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर | 1.9 | | 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. | 6. संतोषप्रद | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | . . | | गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. रामपुर-बघेलान | 3.0 | | जौ कम. | | |
| 4. नागौद | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. उचेहरा | . . | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. कोठर | . . | | | | |
| 10. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| 15. जिला रीवा : | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7 पर्याप्त. |
| 1. त्योंथर | . . | | 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | . . | | अलसी, ज्वार, तुअर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. हनुमना | . . | | | | |
| 5. हुजूर | . . | | | | |
| 6. गुढ़ | . . | | | | |
| 7. मनगवां | . . | | | | |
| 8. सेमरिया | . . | | | | |
| 9. जवा | . . | | | | |
| 10. नईगढ़ी | . . | | | | |
| 11. रायपुरकचुल्लियान | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|----------------------------|----------|-----|-----|--|---------------------------------|--------------|
| 16. जिला शहडोल: | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | .. | | | 4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | .. | | | (2) तुअर बिगड़ी हुई हैं. शेष फसलें सुधरी हुई हैं | | |
| 3. जयसिंहनगर | .. | | | | | |
| 4. बुढ़ार | .. | | | | | |
| 5. गोहपारू | .. | | | | | |
| 6. जैतपुर | .. | | | | | |
| 17. जिला अनूपपुर : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | .. | | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर अधिक. अलसी, मटर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | .. | | | (2) तुअर, मसूर बिगड़ी हुई. अलसी समान हैं. गेहूँ, चना सुधरी हुई हैं | | |
| 3. कोतमा | .. | | | | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | .. | | | | | |
| 18. जिला उमरिया : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर मटर, मसूर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. चंदिया | .. | | | | | |
| 4. नौरोजाबाद | .. | | | | | |
| 5. मानपुर | .. | | | | | |
| 19. जिला सीधी : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गोपदवनास | .. | | | 4. (1) अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. मझौली | .. | | | | | |
| 4. कुसमी | .. | | | | | |
| 5. चुरहट | .. | | | | | |
| 6. बहरी | .. | | | | | |
| 7. रामपुरनैकिन | .. | | | | | |
| 20. जिला सिंगरौली : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | .. | | | 4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ, राई-सरसों, अलसी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | .. | | | (2) तुअर बिगड़ी हुई है. राई, अलसी समान है. | | |
| 3. सरई | .. | | | गेहूँ, चना, जौ सुधरी हुई है. | | |
| 4. माडा | .. | | | | | |
| 5. सिंगरौली | 1.0 | | | | | |
| 21. जिला मंदसौर : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 3. मल्हारगढ़ | .. | | | | | |
| 4. गरोठ | .. | | | | | |
| 5. मंदसौर | .. | | | | | |
| 6. दालोद | .. | | | | | |
| 7. श्यामगढ़ | .. | | | | | |
| 8. सीतामऊ | .. | | | | | |
| 9. धुंधड़क्का | .. | | | | | |
| 10. संजीत | .. | | | | | |
| 11. कयामपुर | .. | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|---------------------------|----------|-----|-----|---|---------------------------------|--------------|
| 22. जिला नीमच : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | .. | | | 4.(1) गेहूँ सरसों, अलसी अधिक. चना, मसूर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | 4.0 | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 3. सिंगौली | .. | | | | | |
| 4. जीरन | .. | | | | | |
| 5. रामपुर | .. | | | | | |
| 6. मनासा | 2.0 | | | | | |
| 23. जिला रतलाम : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. रावा कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | .. | | | (2) .. | | |
| 3. सैलाना | .. | | | | | |
| 4. बाजना | .. | | | | | |
| 5. ताल | .. | | | | | |
| 6. रावटी | .. | | | | | |
| 7. पिपलोदा | .. | | | | | |
| 8. रतलाम | .. | | | | | |
| 24. जिला उज्जैन : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | .. | | | 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. तराना | .. | | | | | |
| 4. घटिया | .. | | | | | |
| 5. उज्जैन | .. | | | | | |
| 6. बड़नगर | .. | | | | | |
| 7. नागदा | .. | | | | | |
| 25. जिला आगर : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़ौद | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. नलखेड़ा | .. | | | | | |
| 4. आगर | .. | | | | | |
| 26. जिला शाजापुर : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मोमनबड़ौदिया | .. | | | 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. शुजालपुर | .. | | | | | |
| 4. कालापीपल | .. | | | | | |
| 5. पोलाय कलां | .. | | | | | |
| 6. अबंतीपुर बड़ौदिया | .. | | | | | |
| 7. गुलाना | .. | | | | | |
| 27. जिला देवास : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | .. | | | 4. (1) मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, उड़द (रबी), मूँग(रबी), चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. देवास | .. | | | | | |
| 4. बागली | .. | | | | | |
| 5. कन्नोद | .. | | | | | |
| 6. हाटपिपल्या | .. | | | | | |
| 7. सतवास | .. | | | | | |
| 8. उदयनगर | .. | | | | | |
| 9. खातेगांव | .. | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|-----------------------------|----------|-----|-----|--|---------------------------------|--------------|
| 28. जिला झाबुआ : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. थांदला | 4.4 | | | 4. (1) उडद(रबी), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. पेटलावद | 1.0 | | | | | |
| 4. झाबुआ | .. | | | | | |
| 5. राणापुर | 0.5 | | | | | |
| 29. जिला अलीराजपुर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोवट | .. | | | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | .. | | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | .. | | | | | |
| 4. सोंडवा | .. | | | | | |
| 5. उदयगढ़ | .. | | | | | |
| 6. चन्द्रशेखर आ. नगर | .. | | | | | |
| 7. भामरा | .. | | | | | |
| 30. जिला धार : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बदनावर | .. | | | 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | .. | | | अधिक. गन्ना, गेहूँ, अलसी, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | .. | | | मटर, जौ कम. | | |
| 4. कुक्षी | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. मनावर | .. | | | | | |
| 6. धरमपुरी | .. | | | | | |
| 7. गंधवानी | .. | | | | | |
| 8. डही | .. | | | | | |
| 31. जिला इन्दौर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | .. | | | 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | .. | | | अलसी, तुअर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | .. | | | (2) गेहूँ सुधरी. शेष फसलें | | |
| 4. गौतमपुरा | .. | | | समान हैं. | | |
| 5. हातोद | .. | | | | | |
| 6. महू | .. | | | | | |
| (डॉ. अम्बेडकर नगर) | | | | | | |
| 32. जिला खरगौन : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | .. | | | 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | .. | | | चना, राई-सरसों कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सेगांव | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. खरगौन | .. | | | | | |
| 5. गोगावां | .. | | | | | |
| 6. कसरावद | .. | | | | | |
| 7. भगवानपुरा | .. | | | | | |
| 8. भीकनगांव | .. | | | | | |
| 9. सनावद | .. | | | | | |
| 10. झिरन्या | .. | | | | | |
| 33. जिला बड़वानी : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ठीकरी | .. | | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजपुर | .. | | | | | |
| 4. सेंधवा | .. | | | | | |
| 5. पानसेमल | .. | | | | | |
| 6. पाटी | .. | | | | | |
| 7. अंजड | .. | | | | | |
| 8. बरला | .. | | | | | |
| 9. निवाली | .. | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|-----------------------------|----------|-----|-----|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 34. जिला खण्डवा : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पुनासा | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खालवा | .. | | | | | |
| 4. पंधाना | .. | | | | | |
| 5. हरसूद | .. | | | | | |
| 35. जिला बुरहानपुर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | .. | | | 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | .. | | | | | |
| 36. जिला राजगढ़ : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. राजगढ़ | .. | | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. जीरापुर | .. | | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खिलचीपुर | .. | | | | | |
| 4. ब्यावरा | .. | | | | | |
| 5. सारंगपुर | .. | | | | | |
| 6. पचौर | .. | | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | .. | | | | | |
| 37. जिला विदिशा : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | .. | | | | | |
| 4. बासोदा | .. | | | | | |
| 5. नटेरन | .. | | | | | |
| 6. विदिशा | 6.0 | | | | | |
| 7. गुलाबगंज | .. | | | | | |
| 8. शमसाबाद | .. | | | | | |
| 9. त्योंदा | .. | | | | | |
| 10. पठारी | .. | | | | | |
| 11. ग्यारसपुर | .. | | | | | |
| 38. जिला भोपाल : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | .. | | | तिवड़ा कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बैरागढ़ | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 39. जिला सीहोर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर | .. | | | 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | .. | | | तुअर समान. गेहूँ, अलसी, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इछावर | .. | | | मटर, जौ कम. | | |
| 4. नसरूल्लागंज | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. रेहटी | .. | | | | | |
| 6. श्यामपुर | .. | | | | | |
| 7. जावर | .. | | | | | |
| 8. बुधनी | 9.0 | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|-----------------------------|----------|-----|-----|--|------------------------------|--------------|
| 40. जिला रायसेन : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | .. | | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. गन्ना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | .. | | | (2) तुअर बिगड़ी हुई शेष फसलें समान हैं. | | |
| 3. बेगमगंज | .. | | | | | |
| 4. गोहरगंज | 1.0 | | | | | |
| 5. बरेली | .. | | | | | |
| 6. सिलवानी | 1.2 | | | | | |
| 7. बाड़ी | 1.5 | | | | | |
| 8. सुल्तानपुर | .. | | | | | |
| 9. उदयपुरा | .. | | | | | |
| 41. जिला बैतूल : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैतूल | .. | | | (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. भैंसदेही | .. | | | (2) .. | | |
| 3. घोड़ाडोंगरी | .. | | | | | |
| 4. शाहपुर | .. | | | | | |
| 5. चिचोली | .. | | | | | |
| 6. मुल्ताई | .. | | | | | |
| 7. आठनेर | .. | | | | | |
| 8. आमला | .. | | | | | |
| 42. जिला होशंगाबाद : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. होशंगाबाद | 3.4 | | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिवनी-मालवा | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. बावई | 2.0 | | | | | |
| 4. इटारसी | 4.4 | | | | | |
| 5. सोहागपुर | 4.0 | | | | | |
| 6. पिपरिया | 1.0 | | | | | |
| 7. बनखेड़ी | .. | | | | | |
| 8. डोलरिया | .. | | | | | |
| 9. पचमढ़ी | .. | | | | | |
| 43. जिला हरदा : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | .. | | | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | .. | | | (2) .. | | |
| 3. सिराली | .. | | | | | |
| 4. रेहटगांव | .. | | | | | |
| 5. हंडिया | .. | | | | | |
| 6. टिमरनी | .. | | | | | |
| 44. जिला जबलपुर : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जबलपुर | .. | | | 4. (1) चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. गेहूँ अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. कुण्डम | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 3. सीहोरा | .. | | | | | |
| 4. पाटन | .. | | | | | |
| 5. मझौली | .. | | | | | |
| 6. शाहपुरा | .. | | | | | |
| 7. पनागर | .. | | | | | |
| 45. जिला कटनी : | मिलीमीटर | 2. | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बहोरीबंद | .. | | | 4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों. गेहूँ. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ढीमरखेड़ा | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 3. रीठी | .. | | | | | |
| 4. बड़वारा | .. | | | | | |
| 5. मुड़वारा (कटनी) | .. | | | | | |
| 6. विजयराघवगढ़ | .. | | | | | |
| 7. बरही | .. | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|------------------------------|----------|-----|---|--|---------------------------------|--------------|
| 46. जिला नरसिंहपुर : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. नरसिंहपुर | .. | | | 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, अधिक. मटर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गोटेगांव | .. | | | (2) .. | | |
| 3. करेली | .. | | | | | |
| 4. गाडरवारा | .. | | | | | |
| 5. तेंदूखेड़ा | .. | | | | | |
| 47. जिला मण्डला : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मण्डला | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नैनपुर | 2.0 | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 3. बिछिया | 1.6 | | | | | |
| 4. निवास | .. | | | | | |
| 5. नारायणगंज | .. | | | | | |
| 6. घुघरी | .. | | | | | |
| 48. जिला डिण्डोरी : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | .. | | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | .. | | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. बजाग | .. | | | | | |
| 49. जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर | 2 | पानी के साथ हल्की ओला वृष्टि से तह. उमरेठ के 10 ग्रामों में एवं मोहखेड के 6 ग्रामों में रबी फसलों में क्षति हुई है. सर्वे कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | 2.8 | | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. तामिया | .. | | | (2) .. | | |
| 3. परासिया | .. | | | | | |
| 4. जून्नारदेव | 10.4 | | | | | |
| 5. सांसर | .. | | | | | |
| 6. बिछुआ | 6.4 | | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | .. | | | | | |
| 8. चौरई | .. | | | | | |
| 9. उमरेठ | .. | | | | | |
| 10. मोहखेड | 1.2 | | | | | |
| 11. हरई | .. | | | | | |
| 12. चांद | .. | | | | | |
| 13. पांडुर्णा | .. | | | | | |
| 50. जिला सिवनी : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | .. | | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, तिवड़ा, तुअर | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बरघाट | .. | | | (2) .. | | |
| 3. कुरई | .. | | | | | |
| 4. केवलारी | .. | | | | | |
| 5. लखनादोन | .. | | | | | |
| 6. छपारा | .. | | | | | |
| 7. धनोरा | .. | | | | | |
| 8. घंसोर | .. | | | | | |
| 51. जिला बालाघाट : | मिलीमीटर | 2 | .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | .. | | | 4. (1) गेहूँ समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | .. | | | (2) गेहूँ समान. | | |
| 3. किरनापुर | .. | | | | | |
| 4. बैहर | .. | | | | | |
| 5. वारासिवनी | .. | | | | | |
| 6. कटंगी | .. | | | | | |
| 7. लालबर्गा | .. | | | | | |
| 8. तिरोडी | .. | | | | | |
| 9. परसवाड़ा | .. | | | | | |
| 10. बिरसा | .. | | | | | |
| 11. खैरलाँजी | .. | | | | | |

ओ. पी. बाथम,

प्रभारी सहायक आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.